

### **PUBLIC NOTICE**

It is hereby informed that I, Nawa Kishore Sharma s/o Late Shri Janak Prasad Sharma is a honafide owner o Property No. 180. Block I. Phase Ashok Vihar (Wazirpur Residentia Scheme), Delhi-110052. I have lost/misplaced the original documents .e. Allotment Letter. Demand lette Possession Letter/Slip, NOC for Water/Electricity, Payment receipts Form-C, Form-D, Completio Certificate, NOC for Sewerage Building Plans and all other related papers etc. in respect of the above said property, if any body finds these documents, please inform me a House No. 180, Block-I, Phase-Ashok Vihar, Delhi 110052. Mob 9312215874.

If any other claimant has any right i the aforesaid property, he/she should file an FIR and give intimation to Dy Director/Residential Land, C-Block 3rd Floor, DDA, Vikas Sadan, INA New Delhi-23 within 30 days from the date of issue of this notice.



Manali Petrochemicals Limited Regd. Off: "SPIC House", 88, Mount Road, Guindy Chennai - 600 032. Telefax: 044 - 2235 1098 CIN: L24294TN1986PLC013087 Website: www.manalipetro.com

### E-mail: companysecretary@manalipetro.com NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday the 12" February 2019, inter alia to consider and approve, the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31" December 2018.

For Manali Petrochemicals Limited

Date: 01.02.2019 R. Kothandaraman Place : Chennai Company Secretary Further details are available in websites of the BSE and NSE, www.bseindia.com and www.nseindia.com and also in the website of

## GRATEX INDUSTRIES LIMITED

CIN: L21093MH1984PLC032248 Regd. Office: 109, Kakad Udyog Bhavan, L. J. Road, Mahim, Mumbai - 400016. Tel No.: (022) 24392321 Fax No.: (022) 40702363 Email: info@gratex.in Website: www.gratex.in

### NOTICE Notice is hereby given pursuant to

Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 12th February, 2019, to consider and take on record the Unaudited financial results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2018.

Baldevkrishan Sharma Managing Director DIN: 00117161

PUBLIC NOTICE

Anil Kumar Singh & Usha Singh

present owners of Flat no. 6, 2nd

Floor, Building No. C/14, Shree

Shivshakri CHS Ltd., Santoshi Mata

Mandir Road, Malad (E), Mumbai

097 have approached our clients

Canara Bank, Malad (E) Branch to avail loan by mortgaging the said

One of the previous linking Original

Agreement entered into in the year

1988 made between M/s. Omex

Builders and Contractors as the

Builder and Mr. Linda W/o. Noel

D'silva as the purchaser was lost

Any persons have any objection or

claim whatsoever should intimate us

in writing within 3 days of this

publication with documentary proof

Pradip Shukla & Co.

Advocates & Notary

Mumbai 400 002

Chamber no. 7, 3rd floor,

Shree Hanuman Building

R.S. SapreMarg(Picket Road),

Landmark Property

**Development Company Limited** 

Registered Office: 11th Floor, Narain Manzil.

CIN: L13100DL1976PLC188942

T. No. 91 11 43621200,

Fax No. 91 11 41501333 Email: info@landmarkproperty.in

Web Site: www.landmarkproperty.in

Unaudited Financial Results for the

quarter ended 31.12.2018

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR)

Regulations, 2015, Notice is hereby given

that a meeting of the Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on

February 14, 2019, interalia, to approve

unaudited Financial Results of the Company

This information is also available on

the web site of the Company and the

web sites of the Stock Exchanges (where the Company's shares are listed

viz. (www.bseindia.com) and

For Landmark Property Development

Dated: 01.02.2019 Company Secretary

Company Limited

S.K.Chawla

(www.nseindia.com)

Place: New Delhi

for the quarter ended December 31, 2018.

23. Barakhamba Road, New Delhi- 110001

and misplaced and not traceable.

Flat.

of objection.

For Gratex Industries Limited

Place: Mumbai Date : 02.02.2019

### SAGAR CEMENTS LTD. CIN: L26942TG1981PLC002887 Regd.Office: Plot No.111, Road No.10, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033

Notice is hereby given that the under mentioned Share Certificates issued by Sagar Cements Limited are reported to have been lost/misplaced by the Registered Holders. who have now applied to the Company for issue of Duplicate Share Certificates in lieu of these cartificates

of these certificates.					
Name of the Shareholder	Share Certifi From	cate Nos. To	Distinct From	tive Nos. To	No. of Shares
P.Ramachandra Reddy	32748 -	32749	634101	- 634200	100
M.Vairavan	23227 -	23236	1723151	- 1723650	500
Kanneganti Lakshmi Kumari	14560 -	14561	438501	- 438600	100
CH Vijayalakshmi	77295		7037301	- 7037400	100

Persons who have any claims in respect of the above said share certificates should lodge their claims with the company within 15 days of the publication of this notice lest the company will proceed to issue duplicate share certificates in lieu of the above mentioned share certificates to the registered holders.

Place: Hyderabad

Date: 01-02-2019

FOR SAGAR CEMENTS LIMITED

Sd/-

Company Secretary

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

### (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

	RELEVANT P	ARTICULARS
1	Name of corporate debtor	CALLINA CARE OVERSEAS PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	20th December, 1999
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	REGISTRAR OF COMPANIES, NCT OF DELHI & HARYANA
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. Of Corporate Debtor	CIN:- U74140DL1999PTC102884
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	REGISTERED OFFICE AS PER ROC COMPANY MASTER DATA :- C-21 FIRST FLOOR HAUZ KHAS NEW DELHI- 110016
	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	31st January, 2019
	Estimated date of closure of insolvency resolution process	30th July, 2019
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	PIYUSH MOONA   REG. NO: IBBI/IPA-001/IP-P00990/2017-18/11630
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: Flat no. 03103 ATS Advantage, Ahinsa Khand 1, Indirapuram, Ghaziabad – 201014 E- mail: piyushmoona@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: Piyush Moona & Co., LGF-82, Rajhans Plaza, Ahinsa Khand 1, Opp. Aditya Mall, Indirapuram, Ghaziabad – 201014 E- mail: callinacarecirp@gmail.com
11	Last date for submission of claims	14th day of February, 2019
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6a) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable as per information available with IRP till date
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	
14	(a) Relevant Forms, and (b) Details of authorized representative are available at:	Web Link: https://ibbi.gov.in/downloadform.html Not Applicable as per information available with IRP till date

CALLINA CARE OVERSEAS PRIVATE LIMITED on 31st January, 2019. All the creditors of CALLINA CARE OVERSEAS PRIVATE LIMITED, are hereby called upon to submi their claims with proof on or before 14th February, 2019 to the Interim Resolution Professional at the

address mentioned against entry No. 10 above. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All othe creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class in Form CA - Not Applicable as per information available with IRP till date Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Piyush Moona Date: 1st February 2019 Interim Resolution Professiona Place: Ghaziabad In the matter of CALLINA CARE OVERSEAS PRIVATE LIMITED REG. NO:- IBBI/IPA-001/IP-P00990/2017-18/11630

**GALADA POWER AND TELECOMMUNICATION LIMITED** Regd. Office: P2/6, IDA, Block III, Uppal, Hyderabad - 500039.

CIN No: L64203TG1972PLC001513 Website: GALADAPOWER.COM Email: fa@galadapower.com

### **EXTRACT OF STATEMENT OF STAND-ALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER / NINE MONTHS PERIOD ENDED 31ST DECEMBER, 2018

Particulars	Quarter ended (Un-audited)			9 Months ended (Un-audited)		Year ended (Audited)
	31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.03.2018
Total Income from operation (net)	153	148	160	332	1560	1831
Net Profit / (loss) from ordinary activities after tax (before exceptional item)	(85)	(33)	(65)	(269)	(102)	149
Net Profit / (loss) for the period after tax (after exceptional items)	(85)	(33)	(65)	(269)	(102)	149
Paid-up equity share capital (of Rs. 10 per share)	749	749	749	749	749	749
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-			_		(5121)
Earnings per share (of Rs. 10 each) (not annualized) - Basic (Rs.) - Diluted (Rs.)	(1.13) (1.13)	(0.44) (0.44)	(0.87) (0.87)	(3.59) (3.59)	1.36 1.36	1.99 1.99

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the guarter / nine months period ended 31st December, 2018 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results for the quarter / nine months period ended 31st December, 2018 is available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com).

By Order of the Board Date : 01.02.2019 Place: Hyderabad

SHRIRAM

HOUSING FINANCE

S. Name and Address of the Borrowers

1. Satyam Mohan

Chauhan

and also at:

411 007

Loan No. & Loan Amount

2. Bhagyashree Haridas Thite

Flat No. 11, 3rd Floor, Rachana

Garden Estate, Jagdish Nagar,

Flat No. 7, 2nd Floor, Chanchal

Co-op Hsg. Soc., Saghavi Nagar,

Between Parihar & Bremen

Maharashtra, Aundh, Pune -

Loan Amount - Rs. 49,88,208/-

(Rupees Forty Nine Lakhs Eighty

Eight Thousand Two Hundred

Eight only) under reference of

Loan Account No.

SHLHPUNH0000230

Chouk, Near Bank of

Aundh, Pune - 411 007

**Devendra Galada Executive Director** DIN: 00415543

SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED

Registered office at Office No. 123, Angappa Naicken Street, Chennai – 600 001.

Head office at -1, Level, Wockhardt Towers, East Wing C-2 Block,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051,

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE UNDER MENTIONED BORROWER(S) WHO HAVE DEFAULTED IN THE REPAYMENT OF PRINCIPAL AND

INTEREST ON THE LOAN FACILITY OBTAINED BY THEM FROM SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED AND THEIR LOAN ACCOUNTS HAVE BEEN

CLASSIFIED AS NON PERFORMING ASSETS (NPA). THE NOTICES WERE ISSUED TO THEM UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND

RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI ACT) ON THEIR LAST KNOWN

Date of

**Demand Notice** 

ADDRESSES, BUT THEY HAVE BEEN RETURNED UNSERVED AND AS SUCH THEY ARE HEREBY INFORMED BY WAY OF THIS PUBLIC NOTICE.

Details of Mortgage Properties/Address

of Secured Assets to be Enforced

All that piece and parcel of Property bearing

Plot No. 3, S. No. 150/1/2/3, 151/1/1A, 151/1/B

151/C, 151/D, 151/2, 148/5 CTS No. 1099

within construction Building known as

Chanchal Co-op Housing Society, within Flat

no. 7. Second Floor, admeasuring about

1060sq. ft. situated at Village Aundh, Tal.

Haveli, Dist. Pune. Within the limits of Pune

Municipal Corporation Pin no. 411007 which is

bounded as under:

North: - Open Space

East: - Open Space

West: - Flat No. 8

South: - Passage & Staircase

## PNC INFRATECH LIMITED CIN- L45201DL1999PLC195937

REGD. OFFICE- NBCC Plaza, Tower-II, 4" Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket, New Delhi-110017 CORP. OFFICE- 3/22-D, Civil Lines, Agra-Delhi Bypass Road, Agra-282002 Contact No. - 011-29574800, 0562-4054400, Fax No.: 0562-4070011, Website- www.pncinfratech.com, E-mail: complianceofficen@pncinfratech.com

### NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 13" day of February, 2019 at its Corporate office at 3/22-D, Civil Lines, Agra-Delhi Bypass Road, Agra inter alia to consider and approve un-audited standalone financial results of the Company for the quarter/nine months ended 31" December, 2018.

The information contained in the Notice is available on the website of the Company www.pncinfratech.com and also on the website of BSE Limited - www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com.

For PNC Infratech Limited

Tapan Jain Company Secretary & Compliance Officer Date: February 01, 2019 ICSI M. No.: A22603

### इलाहाबाद बैक ALLAHABAD BANK (A Govt. of India Undertaking) www.allahabadbank.in

D. H. Road Branch - 282, D.H. Road, Behala, Kolkata- 700 034 RULE - 8 (1) POSSESSION NOTICE(For immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Allahabad Bank, D.H. Road Branch, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security nterest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 30.10.2018 and Subsequently published in 2(Two) Newspapers on 30-11-2018) calling upon the Borrowe M/S S.K. Projectcon Pvt. Ltd. having its Registered Office at Bharat Bhavan, 3, C.R. Avenue, 4th Floor, Kolkata-700072, West Bengal (Directors: (1). Sri Sanjoy Kumar Nag (2) Sri Raja Nag & (3) Sri Ujjal Nag) and Guarantors (i) Smt. Sabita Nag W/o Sri Sanjoy Nag, Flat No. D Ground Floor, DODO Apartment, 268-B, Maharani Indira Devi Road, Pamasree Pally, Kolkata 700060.(ii) Smt. DolaNag W/o Sri Raja Nag, Flat No. 03 B, 3rd Floor, premises No 136, 12/7 Sarat Chatterjee Road, Kolkata-700060. (III)Smt. Gopa Nag W/o Sri Ujjal Nag of Flat No 4D, 4th Floor, premises No 136, 12/7, Sarat Chatterjee Road, Kolkata-700060. (Iv) Sri Sajal Nag S/o Babatosh Nag, 529 Parnasree Pally, premises No 25, Parnasree Pally Road, Kolkata-700060, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.9,59,66,848.00 (Rupees Nine Crore Fifty Nine Lacs Sixty Six Thousand Eight Hundred Forty Eight only) as on 28.10.2018 with accrued interest from 29.10.2018, costs, charges and expenses etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 31st day of January of the year 2019. The Borrower/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the following properties and any dealings with the following properties will be subject to the charge of the Allahabad Bank, D.H. Road Branch, Kolkata for an amount of Rs. 9,59,66,848.00 (Rupees Nine Crore Fifty Nine Lacs Sixty Six Thousand Eight Hundred Forty Eight only) as on 28.10.2018 with accrued interest from 29.10.2018, costs, charges & expenses etc. there upon. The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in spect of time available, to redeem the secured assets

**DESCRIPTION OF THE PROPERTIES** 

Residential flat No C-1 on the 3rd floor measuring 1052 sq. ft. consisting of 2 bedrooms, drawing cum dining room, 1 kitchen, 1 toilet 1w.c, 1 balcony ( south-east, front side) of one G+III storied building named as Santiniketan together with undivided proportionate share of right, title and interest, Premises No. 130A Maharani Indira Debi Road, Kolkata- 7000060, PS -Parnasree within the limit of the KMC Ward No -131, Dist -24 Pgs. (South), Mouza- Behala, JL No.-2, RS No. 83, Pargana- Balia, RS Khatian No.- 7823, RS Dag No. 849, in the name of M/s S K Projectcon Pvt Ltd, vide Deed No 01965/13 of ADSR, Behala.

Boundary: North: By property of Mr. Anil Bish Chowdhury, South: By 19' wide Maharani Indira Debi Road, East: By land and building of NagendranathMaity, West: By 19' wide Maharani Indira

All that piece and parcel of 1/5th share of land, ad-measuring 03 Cottah 7 chittaks 9 sq.ft with structure situated at premises No 25, Parnasree pally Road No 1, Police station - Behala Colkata 700060, Mouza- Behala, JL No.-2, RS No. 83, RS Khatian No.- 66, CS Dag No. 629, Nard No -129 before in the names of Sri Sanjoy Kumar Nag, Sri Sajal Nag, Sri Raja Nag & Sri Ujial Nag vide Sale Deed No 08108 for the year 2008 of ADSR, Behala Boundary: North : By Parnashree Pally Samabay Samity Plot No 520 and 521(P) South :By 20 ft wide KMC Road, East :By Parnashree Pally SamabaySamity Plot No 530 West: By Common Passage and Plot No 521

 Flat No 3B, 3rd Floor, South West Side, ad-measuring 1222 sq.ft super built up Area, with proportionate share of land and common facilities of land ad measuring 12 cottahs 25 sq feet situated at premises No 136 mailing address 12/7, SaratChatteijee Road, Kolkata 700060 police tation Behala, Kolkata -700060, Ward No -131 Mouza- Behala, JL No.-2, RS No. 83, Touzi No.-346, Khatian No.- 7053, Dag No. 644, Ward No -131 in the joint names of Sri Raja Nag and Smt. Dola Nag vide Deed No. 09080 for the year 2009 of ADSRR, Behala Boundary: North : By 6.3 M wide KMC Road, South : By C S plot No 645 East :By House Buildings of Other, West :By C S plot No 644

known as DODO apartment with proportionate share of land and common facilities situated at premises No 268 B, Maharani Indira Devi Road, Parnasree Pally, P.S: Parnasree, Kolkata 700060, Mouza- Behala, JLNo.-2, RS No. 83, Pargana- Balia, RS Khatian No.- 398, RS DAG No. 951, Ward No -129 in the name of Sri Sanjoy Kumar Nag vide Deed No. 3050 for the Boundary: North: By vacant land of Sri Prabir Chakraborty, South: By 16 feet .wide Road East :By CMC surface Drain, West :By land and building of Sri Swapanbanerjee and Sri Hore

4.Flat No. D - 8, Gr. Floor, North West Side, ad-measuring 525 sq.ft super built up Area, commonly

5.All that entire ground floor ad measuring 1060 sq ft. (Super built up area) of Municipal premise: no 119/110, Sagar Manna Road, Police Station - Behala, Kolkata 700060 with right to use Northern side 12' common passage, Mouza- Behala, JL No.-2, RS No. 83, Touzi No.-346, CS &RS Khatian No.- 251, 521 &522, CS Dag No. 3166 &RS DAG No. 3205/3639, Ward No -132 in the joint names of Sri Sanjoy Kumar Nag and Smt. Sabita Nag vide Deed No. 10134 for the year 2010 of ADSR, Behala.

Boundary: North : By K M C Metal Road, South : By car parking Space of Pranesh Chandra Sarka, East :By Other's Land, West :By Road

Flat No 4D, 4th Floor, South West Side, measuring 1221 sq.ft super built up Area, with proportionate share of land and common facilities of land and measuring 12 cottahs 25 sq feet situated at premises No 136 mailing address 12/7, Sarat Chatterjee Road, Police station Behala, Kolkata -700060, Mouza- Behala, JL No.-2, RS No. 83, Touzi No.-346, Khatian No.- 7053, Dag No. 644, Ward No -131 in the joint names of Sri Ujjal Nag &Smt. Gopa Nag vide Deed No. 09081 for the year 2009 of ADSR, Behala

Boundary: North : By 6.3 M wide KMC Road, South: By CS plot No 645

East: By House Buildings of Others, West :By CS plot No 644 7. Vehicle/ Car Mahindra & Mahindra having Registration No. WB-02-AK-8742, Model-Mahindra XUV500 R FWD W10, , Engine No.- HHG4M15876, Chasis No.-MA1YU2HHUH6A10444 in the name of S. K. Projectcon Pvt. Ltd.

Place: Kolkata, Date: 02.02.2019 Authorised Officer, Allahabad Bank

Date of NPA

January 2019 | January 2018 | Seven Lakhs Fifty Eight Thousand

# **Phoenix** ARC

**Borrower** 

Date and Time of Inspection of Property

# **Phoenix ARC Private Limited**

Regd Office: Dani Corporate Park, 5<sup>th</sup> Floor, 158, C.S.T Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai -400 098, Tel: 022-67412314, Fax: 022-67412313 CIN: U67190MH2007PTC168303; Email: info@phoenixarc.co.in Website: www.phoenixarc.co.in

**PUBLIC NOTICE FOR ONLINE E- AUCTION** 

In exercise of the powers under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) read with Rules 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (RULES) and pursuant to the possession of the secured asset of the borrower/guarantors mentioned hereunder vested with the Authorised Officer under the said SARFAESI Act and RULES for recovery of the secured debts, the Authorised Officer has decided to sell the secured assets by Notice is hereby given to the public in general and to the borrowers and guarantors in particular, that the under mentioned properties

mortgaged to Phoenix ARC Private Limited acting in capacity as Trustee of Phoenix Trust FY17-8 (Phoenix) (pursuant to assignment of debt by South Indian Bank (SIB) (Assignor Bank) in favour of Phoenix vide Assignment Agreement dated 17.03.2017) will be sold on "AS IS WHERE IS" basis and "AS IS WHAT IS" condition, by way of "onlinee-auction" for recovery of dues and further interest, charges and costs etc. as detailed below in terms of the provisions of SARFAESI Act read with Rules 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) through website https://www.bankeauctions.com as per the details given below:

ITEM NO. 1		
Borrower	Sha Rubber Company	
Co-Obligant/Guarantors	Mr. Shaji Thomas	
	199	

Demand Notice: Rs.3,70,81,782.21/- (Rupees Three Crore Seventy Lakhs Eighty One Thousand Seven Hundred Eighty Two and Paisa Twenty One only) as on 06.11.2015 with further interest from 07.11.2015 till the date of repayment of dues in full together with incidental expenses, costs and charges as per the Demand Notice dated 07.11.2015 issued under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002.

Property 1(A): Description of Immovable Property: All that piece and parcel of land admg. 04.05 ares (equivalent to 10 cents along with a residential building having total built up area of 1675 Sq. Ft., office building having total built up area of 450 Sq. Ft. Godown having total built up area of 784 Sq. ft., smoke house having total built up area of 2056 Sq. Ft. and vehicle shed having total built up area of 1000 sq. ft. and all other improvements therein comprised in Sy. No. 51/1B situated un Thachampara Village Thachampara Desom, Mannarkad Farka, Mannarkad Taluk, Palakkad District in the name of Mrs. Bekky Cheeran. Property 1(B): Description of Immovable Property: All the part and parcel of vacant land admg. 08.094 ares (equivalent to 20 cents) and all other improvements therein comprised in Sy. No. 25/2 situated in Thachampara Village, Thachampara Desom Mannarkkad, Palakkad District in the name of Mr. Shaji Thomas

Property 1(C): Description of Immovable Property: All that part and parcel of vacant land admg. 04.45 ares (equivalent to 11 cents) and all other improvements there in comprised in Sy.No.603 situated in Chelakkara Village, Chelakkara Desom, Pazhayannur Farka, Thalappilly Taluk, Thrissur District in the name of Mr. Shaji Thomas

Possession details	Property 1(A): Physical Possession taken on 16.02.2017 Property 1(B): Physical Possession taken on 02.03.2016 Property 1(C): Physical Possession taken on 02.03.2016	
Date and Time of Inspection of Property	Property 1(A): 18.02.2019 (Monday) between 11:00 AM to 02:00 PM Property 1(B): 18.02.2019 (Monday) between 11:00 AM to 02:00 PM Property 1(C): 19.02.2019 (Tuesday) between 04:00 PM to 06:00 PM	
Reserve Price:	Property 1(A) Rs.68,44,000/- (Rupees Sixty Eight Lakhs Forty Four Thousand Only) Property 1(B) Rs.45,00,000/- (Rupees Forty Five Lakhs Only) Property 1(C) Rs.33,00,000/- (Rupees Thirty Three lakhs Only)	
Earnest Money Deposit	Property 1(A): Rs.6,84,400/- (Rupees Six Lakhs Eighty Four Thousand Four Hundred Only) Property 1(B): Rs.4,50,000/-(Rupees Four Lakhs Fifty Thousand Only) Property 1(C): Rs. 3,30,000/- (Rupees Three Lakhs Thirty Thousand only)	
EMD Remittance Details: "PHOENIX TRUST FY17-8", Current Account: 0812529164; Kotak Mahindra Bank Limited, Branch: Bandra East, IFSC Code: KKBK0001368		
	Ps 15 000/- (Punees Fifteen Thousand Only)	

Rs.15.000/- (Rupees Fifteen Thousand Only) Incremental Value Last date for submission of EMD 13.03.2019 (Wednesday) before closing of banking hours

Date & Time of E-Auction **14.03.2019** (Thursday) between 11 AM to 12 Noon Link for Tender documents: http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=MzU4 ITEM NO. 2

charges as per the Demand Notice dated 08.12.2015 issued under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002

**Personal Guarantors** 1) Mrs. Jenny Boban 2) Mr. Boban C. K. Demand Notice: Rs. 3,09,53,526/- (Rupees Three Crores Nine Lakhs Fifty Three Thousand Five Hundred Twenty Six only) as on 07.12.2015 with further interest till the date of repayment of dues in full together with incidental expenses, costs and

Gee Gee Jewellery Manufactures Represented by its Proprietor Mr. Givin C. Boban

Property 2(A); Description of Immovable Property: All the piece and parcel of land admeasuring 5.409 cents (equivalent to 2.19 Ares) and all other improvements therein comprised in Sy. No. 364/2 Part, 363/1 and 363/2 Part situated in Kanjirakode Village, Kanjirakode Desom, Wadakkancherry Farka, Thalappilly Taluk, Thrissur District, in the name of Mrs. Jenny Boban more particularly described in Sale Deed No. 3964/2008 dated 22.07.2008 of SRO Wadakkancherry, bounded on the North by: Property of Saidu Muhammed Kizhakepedikayil, on the East by: Vazhi,, on the South by: properties of Jenny and on the West by: properties of Ramankutty and Kunjumuhammed Mullakkal.

Property 2(B); Description of Immovable Property: All the part and parcel of land admeasuring 25 cents (equivalent) to 10.12 Ares) along with a residential building having Approx built up area of 11,131 Sq. Ft. bearing Door No. 360/2 of Erumapetty Panchayat and all other improvements therein comprised in Sy. No. 364/2 Part situated in Kanjirakode Village, Kanjirakode Desom, Wadakkancherry Farka, Thalapilly Taluk, Thrissur District, in the name of Mrs. Jenny Boban more particularly described in Sale Deed No. 159/2007 dated 01.01.2007 of SRO Wadakkancherry, bounded on the North by Vazhi, on the East by Properties of Ezhuthupurakkal Mohanan, Kandery Sajesh Kumar and Pulikkal Xavier, on the South by: Vazhy and property of Ramankutty and on the west by: Property of Jenny Boban. Property 2(C); Description of Immovable Property: All the part and parcel of land admeasuring 12 cents (equivalent to 4.86 Ares) and all other improvements therein comprised in Sy. No. 377/2 Part situated in Kanjirakode Village, kanjirakode Desom, Thalapilly Taluk,

Wadakkancherry, bounded on the North by properties of Immutty etc., on the East by House of Prema Kizhusseri and Gopinathan Nair, on the South by Panchyath Road and House of Prema and on the West by Property of Moidunny, Parambath Valappil. Property 2(D); Description of Immovable Property: All the part and parcel of land admeasuring 16 cents (equivalent to 6.47 Ares) and all other improvements therein comprised in Sy. No. 207 Part situated in Kanjirakode Village, Kanjirakode Desom, Thalapilly

Thrissur District, in the name of Mr. Givin C. Boban more particularly described in Sale Deed No. 4482/2012 dated 01.10.2012 of SRO

Taluk, Thrissur District, in the name of Mrs. Jenny more particularly described in the Sale Deed No. 253/2012 dated 16.01.2012 SRO Wadakkancherry, bounded on the North by Property of Rajan, on the East by Property of Arangathuparanbil Saidu Muhammed, on the South by Property of Sanjay Seth and on the West by vazhi and properties of Pushpakaran and Sanjay Seth. 2(A): Symbolic Possession taken on 17.02.2016 2(B): Physical Possession taken on 01.12.2016 Possession details of property 2(C): Symbolic Possession taken on 17.02.2016 2(D): Symbolic Possession taken on 17.02.2016

**2(A)** - 19.02.2019 (Tuesday) between 11:00 AM to 02:00 PM

**2(B)** - 19.02.2019 (Tuesday) between 11:00 AM to 02:00 PM

**2(C)** - 19.02.2019 (Tuesday) between 11:00 AM to 02:00 PM

	<b>2(D)</b> 19.02.2019 (Tuesday) between 02.30 PM to 03.30 PM		
Reserve Price:	2(A) Rs.5,41,000/- (Rupees Five Lakhs Forty One Thousand Only) 2(B) Rs.1,47,47,000/- (Rupees One Crore Forty Seven Lakhs Forty Seven Thousand Only) 2(C) Rs.18,00,000/- (Rupees Eighteen Lakhs Only) 2(D) Rs.12,80,000/- (Rupees Twelve Lakhs Eighty Thousand Only)		
Earnest Money Deposit	<ul> <li>2(A) Rs.54,100/- (Rupees Fifty Four Thousand One Hundred Only)</li> <li>2(B) Rs.14,74,700/- (Rupees Fourteen Lakhs Seventy Four Thousand Seven Hundred Only</li> <li>2(C) Rs. 1,80,000/- (Rupees One Lakh Eighty Thousand Only)</li> <li>2(D) 1,28,000/- (Rupees One Lakh Twenty Eight Thousand Only)</li> </ul>		
	TRUSTFY17-8", Current Account: 0812529164; h: Bandra East, IFSC Code: KKBK0001368		
Incremental Value	Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only)		
Last date for submission of EMD	13.03.2019 (Wednesday) before closing of banking hours		
Date & Time of E-Auction 15.03.2019 (Friday) between 11 AM to 12 Noon			
Link for Tender documents: http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=MzU5			

Mr. Sajeev T. G Borrower **Personal Guarantors** 1) Mr. Gangadharan T. K 2) Mrs. Alka Sajeev, 3) Kanakavally. K. A M/s. Stay Green Builders and Developers India Private Ltd. Corporate Guarantor Demand Notice: Sum of Rs.19,22,951/- and Rs.4,69,929/- under HL Facility and Rs.7,74,32,417/- under OD Facility as on

ITEM NO. 3

07.07.2014 along with further interest, other charges, cost and expenses as per the Demand Notice dated 08.07.2014 issued under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002. **Description of Immovable Property:** 

Property 3: An extent of 0.0405 Hectares equivalent to 10 cents of land with all improvements therein owned by M/s Stay Green Builders & Developers Pvt. Ltd., situated under R. Sy. No. 187/2 part of Pottore Village, Thrissur Taluk, Thrissur District, covered under Sale Deed No. 465/2012 dated 30.01.2012 of SRO Trichur and bounded in the North by property of Sajeev & Subhash, outh by private Vazhy, East by Property of Subhash and west by Property of Sri. Jayadeep and Mridhula.

Possession details of property Physical Possession taken on 28.09.2015 Date and Time of Inspection of Property 20.02.2019 (Wednesday) between 11:00 AM to 01:00 PM Reserve Price: Rs.27,50,000/- (Rupees Twenty Seven Lakhs Fifty Thousand Only) **Earnest Money Deposit** Rs.2,75,000/- (Rupees Two Lakhs Seventy Five Thousand Only EMD Remittance Details: "PHOENIX TRUST FY17-8", Current Account: 0812529164: Kotak Mahindra Bank Limited, Branch: Bandra East, IFSC Code: KKBK0001368 Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only) **Incremental Value** Last date for submission of EMD 13.03.2019 (Wednesday) before closing of banking hours Date & Time of E-Auction **14.03.2019** (Thursday) between 11 AM to 12 Noon Link for Tender documents: http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=MzYw

Terms & Conditions:

1. The Auction Sale is being conducted by the Authorised Officer under the provisions of SARFAESI Act with the aid and through eauction. Auction/ Bidding shall be only through "Online Electronic Mode" through the website https://www.bankeauctions.com M/s C1 India Private Limited is the service provider to arrange platform for e-auction. 2.The Auction is conducted as per the Terms and Conditions of the Bid Document and as per the procedure set out therein. For

detailed terms and conditions of the sale the bidders may go through the website of Phoenix, www.phoenixarc.co.in and the respective links mentioned in each of the Items herein above as well as the website of the service provider, www.bankeauctions.com for bid documents, the details of the secured assets put up for auction/obtaining the bid form. 3. The bidders may participate in the e-auction quoting/ bidding from their own offices/ place of their choice. Internet connectivity

shall have to be arranged by each bidder himself/itself. The Authorised Officer/ Phoenix/ service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash down, power failure etc. 4.For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact Mr. Hareesh Gowda of M/s C 1 India Private Limited, Contact Number: 91-124-4302020/2021/2022/2023/2024, 91-9594597555/07291981124/25/26, email

id: support@bankeauctions.com 5.Bidders may also go through the website of Phoenix, <u>www.phoenixarc.co.in</u> for verifying the details of the secured asset put up for auction/obtaining the bid form. 6.The e-auction will be conducted on the date and time mentioned herein above, when the secured asset mentioned above will be

sold on "AS IS WHERE IS" basis and "AS IS WHAT IT IS" condition. 7.All the intending purchasers/ bidders are required to register their name in the portal mentioned above as https:// www. bankeauctions.com and get user ID and password free of cost to participate in the e-auction on the date and time as mentioned aforesaid. 8.For participating in the e-auction, intending purchasers/ bidders will have to submit the details of payment of refundable Earnest

Money Deposit of 10% of the Reserve Price of the Secured asset along with copies of the PANCARD, Board Resolutions in case of Company and Address Proof on or before the Last date for submission of EMD mentioned above. Intending purchasers/bidders are required to submit separate EMDs for each of the Items detailed herein above.

9. The successful purchaser/ bidder shall deposit the 25% (inclusive of EMD) of his/ its offer for each of the Item by way of RTGS/NEFT to the account mentioned hereinabove on or before the close of banking hours on the date of Auction mentioned above, which deposit shall have to be confirmed by Phoenix, failing which the sale will be deemed to have been failed and the EMD

of the said successful purchaser/ bidder shall be forfeited. 10.The EMD of all other bidders who did not succeed in the e-auction will be refunded by Phoenix within 48 hours of the closure

E-auction. The EMD shall not carry any interest.

11.The balance amount of purchase consideration shall be payable by the successful purchaser/ bidder on or before the fifteenth (15) day of confirmation of sale of the said secured asset or such extended period as may be agreed upon in writing. In case of default, all amounts deposited till then shall be liable to be forfeited.

12.For inspection of the property/ies or more information, the prospective bidders may contact Ms. Pallavi Chavan/Mr. Ajit Kewin,at above mentioned address pallavi.chavan@phoenixarc.co.in/ajit.kewin@phoenixarc.co.in (email) or on 09167490366/

13.At any stage of the auction, the Authorised Officer may accept/reject/modify/cancel the bid/offer or post-pone the auction without assigning any reason thereof and without any prior notice. 14.The successful purchaser/bidder shall bear any statutory dues, taxes, fees payable, stamp duty, registration fees, etc. that is

required to be paid in order to get the property conveyed/delivered in his/her/its favour as per the applicable law. 15.The payment of all statutory/non statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc. owing to the property during any

time, shall be the sole responsibility of the successful bidder only. 16.The successful purchaser/bidder shall be solely responsible for any cost / expenses / fees / charges etc. payable to the any

authority towards the transfer of the rights in its / his / her favour.

Date :02.02.2019

17. The Borrower/ Guarantors, who are liable for the said outstanding dues, shall treat this Sale Notice as a notice under Rule 8 Clause (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, about the holding of the above-mentioned auction sale Place: Kerala Sd/- Authorised Officer

Phoenix ARC Private Limited. (Trustee of Phoenix Trust FY17-8)

DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE, FAILING WHICH FURTHER STEPS WILL BE TAKEN AFTER EXPIRY OF THE SAID 60 DAYS UNDER SUB SECTION (4) OF SECTION 13 OF SARFAESI ACT AGAINST ALL OR ANY ONE OR MORE SECURED ASSETS ENTIRELY AT YOUR COST AND CONSEQUENCES IN TERMS OF PROVISION AS PER SECTION 13(13) OF THE SAID ACT. YOU ARE HEREBY PROHIBITED FROM TRANSFERRING EITHER BY WAY OF LEASE, SALE OR OTHERWISE OTHER THAN IN THE ORDINARY COURSE OF YOUR BUSINESS OR CREATE ANY THIRD PARTY INTEREST IN ANY WAY IN ANY OF THE SECURED ASSETS AS REFERRED TO IN THIS NOTICE WITH OUR PRIOR CONSENT.

THE ABOVE BORROWERS ARE HEREBY CALLED UPON TO MAKE PAYMENT OF OUTSTANDING AMOUNT AS MENTIONED ABOVE WITHIN 60 DAYS FROM THE

PLACE: Pune FOR SHRIRAM HOUSING FINANCE LTD.

AUTHORISED OFFICER DATE: 02.02.2019

09.01.2019

DEMAND NOTICE UNDER

SECTION 13(2) OF THE

SARFAESI ACT, 2002

Amount outstanding

Rs. 57.58.836/- (Rupees Fifty

Eight Hundred Thirty Six only

under reference of Loan Account

No. SHLHPUNH0000230 as on

# दिल्ली पर्यटन

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास कॉर्पोरशन लिमिटेड (इंजीनियरिंग विंग)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना कार्यपालक अभियंता (एमबी), डीटीटीडीसी लि., प्रेम बारी पुल, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110 088

(दूरभाष. : 011-27321180) एम.डी. एवं सी.ई.ओ. डीटीटीडीसी लि. की तरफ से, निम्नलिखित कार्य के लिए ऑनलाइन आइटम रेट निविदाएं आमंत्रित करते हैं :- एनआईटी नं: 06/ईई (एमबी) / डीटीटीडीसी / इंजीनियरिंग / 2018-19, कार्य का नाम : Development of (Horticulture & Landscaping) and one year maintenance work of Sarvodaya Kanya Vidyalaya Jafrabad, Jeenat Mahal, Delhi. (School ID: 1105018), RSKV (School ID. 1002024) and RSBV (School ID 1002177) at Block 27 Trilok Puri Delhi and GGSSS School, New Kondali, (School ID: 1002186) Delhi., अनुमानित लागत : रु. 35,41,163/- घरोहर राशि : रु. 70,823/- कार्य पुरा करने की अवधि: 90 दिन। निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि और समय: 08.02.2019 को दोपहर बाद 03.00 बजे। निविदा पहचान सं.: 2019 डीटीटीडीसी 167240 1 अधिक विवरण और नियम ए शर्तों के लिए वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in देखी जा सकती है।



पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी प्लाजा, टावर-II, 4 था तल, पुष्प विहार, सेक्टर-V, साकेत, नई दिल्ली-110017 कॉर्प. कार्यालयः 3/22-डी, सिविल लाइंस, आगरा-दिल्ली बाईपास रोड, आगरा-282002 संपर्क नं.: 011-29574800, 0562-4054400, फैक्स नं.: 0562-4070011,

वेबसाइटः www.pncinfratech.com, ई-मेलः complianceofficer@pncinfratech.com

सूचना-पत्र

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के विनियमन 29 एवं 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार 13 फरवरी. 2019 को 3/22-डी. सिविल लाइंस. आगरा-दिल्ली बाईपास रोड. आगरा में उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही/नौ महीने के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों पर विचार तथा

सचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.pncinfratech.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिये

स्थानः आगरा तिथि: 01 फरवरी, 2019

तपन जैन कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी ICSI M. No.: A22603

# **RattanIndia**

रतनइंडिया इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड

(पहले नाम इंडियाबुल्स इन्फ्रास्टक्चर एंड पावर लिमिटेड) (CIN: L40101DL2010PLC210263)

पंजीकृत कार्यालय: पाँचवी मंजिल, टॉवर-बी, वल्डमार्क 1, एरोसिटी, नई दिल्ली -110037 फोन :011-46611666 फैक्स : 011-011-46611777

वेबसाईट: www.rattanindia.com/ril ई-मेल: ir@rattanindia.com

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि दिसंबर 31, 2018 को समाप्त हुई तिमाही के लिए, रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार फरवरी 07, 2019 को आयोजित की जाएगी

यह सूचना कंपनी की वेबसाईट और स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है ।

कृते रतनइंडिया इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: फरवरी 01, 2019

कंपनी सचिव

KAMA Holdings

# कामा होल्डिंग्स लिमिटेड

(सीआईएन: L92199DL2000PLC104779) पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस,

नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003

दुरभाष संख्याः (+91-124) 4354400 • फैक्सः (+91-124) 4354500

ईमेल: info@kamaholdings.com • वेबसाइट: www.kamaholdings.com

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 के साथ पठित नियमावली 47 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 12 फरवरी 2019 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 31 दिसबर 2018 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन हेतु आयोजित की जाएगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.kamaholdings.com एवं एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते कामा होल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता०/-रजत लखनपाल

एवं कम्पनी सचिव)

(पूर्ण कालिक निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी स्थानः गुरुग्राम

दिनांकः 1 फरवरी, 2019

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

## (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

### MANSAROVAR HERITAGE INN PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS

Mansarovar Heritage Inn Private Limited Name of corporate debtor Date of incorporation of corporate debtor November 13, 1997 Authority under which corporate debtor is incorporated / registered U55102DL1997PTC178066 4 Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor Regd. address: B 292, Chandra Kanta Complex Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor Shop No. 8, Near Metro Pillar No. 161, New Ashok Nagar, Delhi, New Delhi -110096 6 Insolvency commencement date in respect of Date of Order: January 30, 2019 Date of Intimation to IRP: January 31, 2019 corporate debtor Estimated date of closure of insolvency 180 days from the Insolvency Commencement date i.e. July 29, 2019 Name and registration number of the Name: Darshan Singh Anand | Reg No.: insolvency professional acting as interim IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931 9 Address and e-mail of the interim resolution Reg. Address: EG-46, Inder Puri, New Delhi-110012. professional, as registered with the Board Reg Email Id: dsanand57@gmail.com 10 Address and e-mail to be used for Address: Sumedha Management Solutions

correspondence with the interim resolution Pvt. Ltd., B-1/12, 2nd Floor, Safdurjung Enclave, professional New Delhi-110 029. Email id: cirp.mhipl@gmail.com 11 Last date for submission of claims February 14, 2019 12 Classes of creditors, if any, under clause (b) of Class-I Allotees under Real Estate Projects sub-section (6A) of section 21, ascertained by

the interim resolution professional 13 Names of Insolvency Professionals identified to 1. Name- Mr. Rajneesh Singhvi | Reg No. act as Authorised Representative of creditors in IBBI/IPA-001/IP-P00037/2017-2018/10098 a class (Three names for each class) IBBI/IPA-001/IP-P01474/2018-2019/12248

2.Name - Mr.Sunil Kumar Bhardwaj | Reg No. -3.Name - Mr. Vishal Gupta | Reg No. -BBI/IPA-001/IP-P01471/2018-2019/12247 14 (a) Relevant Forms and (a) Web link for downloading claim forms: (b) Details of authorized representatives are www.ibbi.gov.in/downloadform.html

(b) Physical Address: 1. Mr. Rajneesh Singhvi available at: Address: 36 A, Suraj Nagar (East), Civil Lines, Jaipur, Rajasthan-302 006 Email Id: rajneesha1@gmail.com Mr. Sunil Kumar Bhardwaj | Address: 695-A, Surya Nagar, Gopalpura Bypass, Mahesh Nagar, Lal Kothi, Gandhi Nagar, Jaipur,

Rajasthan-302 015. Email id: sbhardwajca@gmail.com 3. Mr. Mr. Vishal Gupta | Address: 242-A, Vivek Vihar, New Sanganer Road, Jaipur,

Rajasthan-302 019. Email Id: vgcjaipur@gmail.com Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal (New Delhi Bench) has ordered the

commencement of a corporate insolvency resolution process of the Mansarovar Heritage Inn Private Limited on January 30, 2019 vide order no C.P.No.IB-1289(PB)/2018. The creditors of Mansarovar Heritage Inn Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before February 14, 2019 to the interim resolution professional at the address.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class Allottees under Real Estate Projects in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Name and Signature of Interim Resolution Professional

Date: February 02, 2019 Darshan Singh Anand Reg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931 Place: New Delhi

mentioned against entry No. 10.

# बजट के बाद शेयर बाजार में तेजी

# कृषि और मध्य वर्ग पर ध्यान दिए जाने से निवेशकों में उत्साह

मुंबई, १ फरवरी (भाषा)।

आम चुनाव से पहले सरकार के अंतिम लोक-लुभावन बजट के बाद शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखी गयी। हालांकि कुछ निवेशक किसानों को दी गयी राहत और करों में छूट से राजकोषीय स्थिति बिगडने को लेकर आशंकित भी रहे।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला संवेदी सुचकांक कारोबार के दौरान 500 अंक से अधिक उछलकर एक समय 36,778.14 अंक पर पहुंच गया था। लेकिन बाजार का यह जोश कायम नहीं रह सका और यह एक समय गिरकर 36,221.32 अंक तक आ गया। कारोबार के समाप्त होने पर यह आखिरकार 212.74 अंक यानी 0.59 फीसद मजबत रहकर 36,469.43 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 62.70 अंक यानी 0.58 फीसद उछलकर 10,893.65 अंक पर रहा।

कारोबारियों ने कहा कि बजट में कृषि तथा मध्यम वर्ग पर ध्यान दिये जाने से निवेशकों में उत्साह रहा और वाहन और उपभोग आधारित शेयर तेजी में रहे। सरकार ने पांच लाख रुपए तक की

• सवेदी सूचकांक 36,469 .43 अंक पर बंद •िनफ्टी उछलकर 10,893.65 अंक पर पहुंचा

आय पर कर में पूरी छूट देने, छोटे किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपए देने और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को तीन हजार रुपए का मासिक पेंशन देने की बजट में घोषणा की। आम चुनाव से पहले लोक-लुभावन कदमों के कारण चालु वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटो सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) के 3.3 तक सीमित रखने के लक्ष्य में चक के बाद भी बाजार की धारणा सकारात्मक बनी रही।

गोयल ने बजटीय भाषण में कहा कि चाल वित्त 2.62 फीसद तक चढ गए।

वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.30 फीसद के लक्ष्य से कुछ ऊपर 3.40 फीसद रहने की आशंका है। एपिक रिसर्च के सीईओ मस्तफा नदीम ने कहा- ये सभी ऐसी घोषणाएं हैं जो निवेश के संदर्भ में बाजार में काफी तरलता लाएंगी। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में मुनाफावसूली और एकीकरण की आशंकाएं हैं लेकिन हमें धारणा के मजबूत बने रहने का अनुमान है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि एनडीए सरकार ने लोकल्भावन कदमों से सत्ता बरकरार रखने की उम्मीदें मजबत कर ली है। इससे राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित होगी जो बाजार के लिए सकारात्मक है। सप्ताह के दौरान सचकांक 443.89 अंक यानी 1.23 फीसद और निफ्टी 113.10 अंक यानी 1.04 फीसद मजबूत हुआ। बंबई शेयर बाजार में वाहन, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, एफएमसीजी और रीयल्टी शेयर

# दिवाला कानून की प्रक्रिया में जाएगी रिलायंस कम्युनिकेशंस

नई दिल्ली, १ फरवरी (भाषा)।

अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस ने कर्ज भुगतान के लिए संपत्तियों की बिक्री में असफल रहने पर दिवाला एवं ऋणशोधन कानन के तहत समाधान प्रक्रिया में जाने का निर्णय लिया है। कंपनी ने शक्रवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने एनसीएलटी के माध्यम से ऋण समाधान योजना लागु करने का निर्णय किया है।

निदेशक मंडल ने शुक्रवार को कंपनी की कर्ज निपटान योजना की समीक्षा में पाया कि 18 महीने बीत जाने के बाद भी संपत्तियों को बेचने की योजनाओं से कर्जदाताओं को अब तक कुछ नहीं मिल पाया है। इस आधार पर निदेशक मंडल ने तय किया कि कंपनी एनसीएलटी मुंबई के जरिए तेजी से समाधान का विकल्प चुनेगी। निदेशक मंडल का मानना है कि यह कदम सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा।

# किसानों, मध्यम वर्ग के अनुकूल बजट से बढेगी माग: उद्योग जगत

नई दिल्ली, 1 फरवरी (भाषा)।

यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

पो. ऑफ. मोहनलालगंज, लखनऊ-226301 (यू.पी.)

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी

(सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकाटिकरण आवश्यकताओं)

अधिनियम 2015 के अंतर्गत विनियम

29(1)(अ) के नियमन 47 के अनुसार कंपनी के

निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 11 फरवरी

2019 को अपराह 01:30 बजे, महमूदाबाद

एस्टेट बिल्डिंग,15-हजरतगंज, लखनऊ र आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्यसूची के

अनुसार अन्य विषयों के साथ बिना लेखा

परीक्षा के दिनांक 31.12.2018 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार किया

CRANEX LIMITED

CIN: L74899DL1973PLC006503

Registered Office: 9. DDA Market, Katwaria Sara

Opposit Qutab Hotel, New Delhi -110016

Works: 57/1, Site-IV, Industrial Area,

Sahibabad (U.P.)-201010

Ph: 0120-3240427, 4167628

Fax: 91-120-4167630

Website: www.cranexltd.com

Email: cranex1@yahoo.com, info@cranexltd.com

In Compliance of Regulation 29 read with

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is

hereby informed that a meeting of Board of

Directors of the Company is scheduled to be held

on Thursday, 14th February, 2019 at 04:30 P.M. at

the Corporate Office of the Company at 57/1

Industrial Area, Site IV, Sahibabad -201010 (UP)

to consider and approve, inter-alia, the Unaudited

Standalone Financial Results of the Company for

the Third guarter and Nine Month ended 31st

Pursuant to the Company's Code of Conduct

framed in accordance with SEBI (Prohibition of

Insider Trading) Regulations, 2015 ('the code'),

Trading Window for dealing in shares of the

Company, for persons specified under the Code,

shall remain closed from Wednesday, 06th February,

2019 to Friday, 15th February, 2019 (both days

The said notice may be accessed on the

Company's website at www.cranexltd.com and

may also be accessed on the Stock Exchange at

फार्म नं. INC-26

कम्पनी ( इनकारपोरेशन नियम, 2014 के

नियम 30 के मामले में ]

क्षेत्रीय निदेशक उत्तर क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की

उपधारा (४) और कम्पनीज (इनकारपोरेशन)

नियम 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के

अनुच्छेद (ए) के मामले में तथा गौड

इण्डस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय 4/1997, गली नं. 16ए,

विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 के

एतद् द्वारा आमजन को सूचना दी जाती है कि

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा

13 के अनुसरण में इसके पंजीकृत कार्यालय को

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा

राज्य में स्थानान्तरित करने के लिये इसके

पार्षद सीमा नियम में बदलीकरण हेत् कंपनी की

असाधारण सभा दिनांक 01.08.2018 में विशेष

प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी प्रमाणिकता

हेत् क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, दिल्ली के

कोई व्यक्ति जिसके हित कम्पनी के पंजीकृत

कार्यालय के प्रस्तावित बदलीकरण द्वारा

प्रभावित होते है, वह इस सूचना के प्रकाशन की

तिथि से 14 दिन के अंदर MCA-21 पोर्टल

(www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत

फार्म भरकर अथवा मूल रूप से एक शपथ पत्र

द्वारा अपने हित की प्रकृति एवं विरोध के आधारों

का उल्लेख करते हुएँ क्षेत्रीय निदेशक उत्तर क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन,

ब्बः कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को

पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है अथवा प्रस्तृत

कर सकता है। जिसकी एक प्रति आवेदक

कृते गौड इण्डस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

भेजी जाए।

हेमा गौड

निदेशक

(DIN-01393284)

निदेशक मंडल की आज्ञा से

समक्ष एक याचिका दर्ज कराना प्रस्तावित है।

मामले में...... याचिकाकर्ता

By Order of the Board

For Cranex LIMITED

Company Secretary

& Compliance Officer

Prakash Kedia

December, 2018.

www.bseindia.com

Place: New Delhi

Date: 01.02.2019

दिनांक : 02.02.2019

कते यु.पी. एसबेस्टस लिमिटेड

हस्ता/-

(मनीष कुमार सिंह

कम्पनी सचिव

उद्योग जगत ने वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को पेश 2019-20 के अंतरिम बजट को मध्यम वर्ग और किसानों के अनुकूल बताया है। उद्योग जगत का कहना है कि इससे मध्यम वर्ग, किसान और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के पास खर्च योग्य आमदनी बढेगी। गौतम अडाणी, आनंद महिंद्रा, आइटीसी के प्रबंध निदेशक संजीव पुरी, वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कृष अय्यर का मानना है कि बजट में किसानों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मध्यम वर्ग के मुद्दों को अर्थव्यवस्था को दिवालियापन के जोखिम से बचाते हुए हल किया गया है। अडाणी समृह के चेयरमैन एवं संस्थापक गौतम अडाणी ने ट्वीट

किया- मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारी और किसान आर्थिक वृद्धि की जीवनरेखा हैं। बजट 2019 में लाखों सपनों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया-मैं चुनाव की वजह से लोकलुभावन बजट की उम्मीद कर रहा था। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मध्यम वर्ग और किसानों को अर्थव्यवस्था को दिवालियापन के जोखिम में डाले बिना राहत दी गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि बजट 2019-20 में मांग और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सही बिदुओं को छुआ गया है।

# भारत दुनिया में सबसे तेजी से राजमार्गों का विकास करने वाला देश: वित्तमंत्री

नई दिल्ली, १ फरवरी (भाषा)।

भारत दुनिया में इस राजमार्ग का सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला देश है और हर रोज औसतन 27 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर रहाहै। वित्त मंत्री पीयुष गोयल ने शुक्रवार को देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के महत्त्व को रेखांकित किया। लोकसभा में वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए, गोयल ने कहा कि सिक्किम में हवाई अङ्गा चाल होने के साथ अब देश में 100 हवाई अड्डे चालू हो गए हैं।

गोयल ने कहा कि तेज बनियादी ढांचे के विकास से परिवर्तनकारी बदलाव शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा- भारत पूरी दुनिया में सबसे तेज राजमार्ग विकासकर्ता देश है जो हर दिन 27 किमी राजमार्ग बना रहा है। गोयल ने असम के बोगीबील ब्रिज और दिल्ली में भीड़ को कम करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसी अटकी परियोजनाओं को चालू करने का श्रेय अपनी सरकार को देते हुए, कहा कि भारत ने जलमार्गों पर कंटेनर की आवाजाही के सपने

को भी साकार किया है।

बंदरगाह नीत विकास के लिए सरकार की महत्त्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना का उल्लेख करते हुए, गोयल ने कहा कि पहली बार कंटेनर कार्गों को कोलकाता से वाराणसी भेजा गया और अब पूर्वोत्तर के लिए कंटेनर कार्गी आवाजाही शुरू करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सागरमाला एक नई नीली अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकता है और अन्य जलमार्गों को विकसित किए जाएंगे। गोयल ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि भारत 10 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखता है और इसके लिए भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयात में कटौती के लिए वैकल्पिक ईंधन पर जोर दिया गया है और भारत इलेक्टिक वाहनों के जरिए परिवहन क्रांति के माध्यम से दुनिया की अगुवाई करेगा।

उन्होंने कहा कि रेल, समुद्र, शहरी परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए अगली पीढी के बनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

दुरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए आबंटन को बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए कर दिया है। वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में इस योजना पर 15,500 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण की रफ्तार तीन गना हो गयी है और इसके तहत कुल 17.84 लाख बस्तियों में से 15.8 लाख को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।

उडान योजना को रेखांकित करते हए, गोयल ने कहा कि भारत में अब 100 परिचालनगत हवाई अड्डे हैं और कहा कि घरेलू यात्री यातायात के दोगुना होने के साथ भारी मात्रा में नौकरियां पैदा होंगी। मंत्री ने कहा. रेलवे में बड़ी लाइनों पर सभी मानव रहित रेल क्रॉसिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। रेलवे का पूंजीगत व्यय कार्यक्रम अगले वित्त वर्ष में 1.58 लाख करोड़ रुपए के अब तक के उच्चतम स्तर पर है।

# देवास मल्टीमीडिया पर 1,585 करोड़ का जुमोना

नई दिल्ली, १ फरवरी (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने एंटिक्स-देवास सौदा मामले में विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन को लेकर देवास मल्टीमीडिया, इसके निर्देशकों और विदेशी निवेशक कंपनियों को 1,585 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और पूर्ववर्ती विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी) द्वारा तय की गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए करीब 578 करोड रुपए का विदेशी निवेश प्राप्त करने के आरोप में यह जुर्माना लगाया गया है। जांच पूरी करने के बाद 30 जनवरी को यह नोटिस जारी किया गया। मामले के निर्णय के दौरान यह पाया गया कि देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीएमपीएल) ने

फेमा का उल्लंघन करते हुए भारत के बाहर स्थित निवेशकों से निवेश प्राप्त किया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दक्षिणी रेंज के विशेष निदेशक के निर्णय के बाद डीएमपीएल, विदेशी कंपनियों (निवेशकों) और डीएमपीएल के विदेशी निदेशकों पर कुल 1585.08 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।

### OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARD, KATRA **EXTENSION OF TENDER NOTICE**

In reference to Abridged Tender Notice No. Co/Cat/248/1455 dated 21.12.2018, the last date for submission of tender from Principal Firms/ Authorized Franchisees/ Firms/ any individual for providing Catering Services at Bhojanalaya Vaishnavi Dham, Rail Head Complex, Jammu of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, on leave and License basis and "On as is where is basis" is hereby further extended upto 7th of February, 2019, 1500 hrs. The other terms and conditions of the tender shall remain the same.

No.: CO/Cat/248/1651 Dated: 01.02.2019

31<sup>st</sup> Dec. 2018.

Sd/- (Dr. Arvind Karwani), KAS Dy. Chief Executive Officer.

## GLOBUS SPIRITS LIMITED

REGISTERED OFFICE: F-0, GROUND FLOOR, THE MIRA CORPORATE SUITES, PLOT NO. 1 &2, ISHWAR NAGAR, MATHURA ROAD, NEW DELHI-110065

In terms of the Clause 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the next meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 7<sup>th</sup>February, 2019, inter-alia, to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 3<sup>rd</sup>Quarter and Nine Months ended on

The said notice is also available on the company's website www.globusspirits.com and also available on BSE & NSE website. For Globus Spirits Limited

Dated: 31<sup>st</sup> January, 2019

Santosh Kumar Pattanayak (Company Secretary)

lobus Spirits

प्रपत्र ए

## सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत] कैलिना केयर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवस्प कैलिना केयर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि 20 दिसम्बर, 1999 वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक कम्पनी रजिस्टार, दिल्ली एवं हरियाणा

कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का CIN: U74140DL1999PTC102884 लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान आरओसी कम्पनी मास्टर डैटा के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः कार्यालय (यदि कोई हो) का पता सी-21, प्रथम् तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016 6. कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला प्रक्रिया 31 जनवरी, 2019 आरंभ होने की तिथि दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित 30 जुलाई, 2019

8. अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण पीयूष मूना (पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है

P00990/2017-18/11630 बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पताः फ्लैट नं. 03103 एटीएस एडवान्टेज, अहिंसा खंड-1 इन्दिरापरम. गाजियाबाद-201014 ई-मेलः pivushmoona@gmail.com 10. अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये | पताः पीयूष मूना एंड सं., एलजीएफ-82, राजहंस प्लाजा अहिंसा खंड 1. आदित्य मॉल के सामने, इन्दिरापुरम प्रयक्त होने वाला पता तथा ईमेल गाजियाबाद–201014

ईमेलः callinacarecirp@gmail.com 11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी, 2019 12. क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा इस तिथि तक आईआरपी को उपलब्ध जानकारी के अनसा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव लागू नहीं। प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया

13. किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप लागु नहीं में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन

14. (क) संबंधित प्रपत्र तथा वेब लिंकः https://ibbi.gov.in/ downloadform (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है | html इस तिथि तक आईआरपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार . एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, कोर्ट नं. IV, नई दिल्ली पीठ ने 31 जनवरी, 2019 को

कैलिना केयर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शरू करने का आदेश दिया है। एतदद्वारा

कैलिना केयर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 14 फरवरी, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग में संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि वे रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी

पसंद को दर्शाएं- इस तिथि तक आईआरपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। तिथि: 1 फरवरी. 2019

अंतरिम प्रस्ताव पॉफेश्नल कैलिना केयर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00990/2017-18/11630

पीयूष मूना

# सेल अध्यक्ष ने की बजट की सराहना

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 फरवरी।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने मोदी सरकार द्वारा 2019-20 के अंतरिम बजट को भारतीय उद्योग

और इस्पात क्षेत्र के लिए सकारात्मक बताया है। बकौल चौधरी यह बजट देश के तेज गति के आर्थिक विकास पर केंद्रित होने के साथ -साथ रेलवे. रक्षा, सड़क, फ्लाइवेयर, विमानन, जलमार्ग, अंतरिक्ष, एलपीजी गैस समेत सागरमाला परियोजना जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस है।

📵 पूर्वोत्तर रेलवे ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मंडल रेल प्रबंधक(इंजी०) / वाराणसी निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से "खुली" निविदा आमंत्रित करते हैं। ई-निविदा सूचना सं0 एवं कार्य का नाम अनुमानित लागत | अमानत राशि

एनईआर-बीएसबी-2018-291 ₹ 4,83,17,265.00 ₹ 3,91,590.00 निविदा प्रपत्र का मूल्य : र 10000.00 सासामुसा, जलालपुर, तरयासुजान, कठकुईया एवं लक्ष्मीगंज स्टेशनों पर हैण्डपम्प का प्रावधान तथा स्वीकत पत्र जारी होने के समय से कार्य स्टेशन एप्रोच रोड, सरकुलेटिंग एरिया का सुधार कार्य। समापन / अवधि की तिथि : 10 माह एनईआर-बीएसबी-2018-292 ₹ 62,72,371.00 | ₹ 1,25,450.00 निविदा प्रपत्र का मूल्य : ₹ 5000.00

गाजीपुर सिटी कोचिंग डिपो पर मैकेन्जाइड रवीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य लॉन्डी का प्रावधान। समापन / अवधि की तिथि : 06 माह सभी कार्यों के लिये निविदा बन्द होने की तिथि :— 27.02.2019 निविदा सूचना संख्या एनईआर-बीएसबी-2018-291 से एनईआर-बीएसबी –2018–292 दिनांक 27.02.2019 को 14.30 बजे तक आनलाईन जमा कर सकेगें।

 पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें • यदि निविदा सूचना में हिन्दी एवं अंग्रेजी में अंतर होता है तो निविदा सूचना में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। मजाधि / डब्ल्-242 मण्डल रेल प्रबन्धक(इंजी0), वाराणसी

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाइल नं० ०९७७४४४५९५५ पर एस.एम.एस करें। गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

(CIN: L74899DL1942PLC000644)

Regd. Office: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002

Email: bharatnidhi1@gmail.com, Phone No.: 011-43562982, Website: www.bharatnidhi.com

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure quirements) Regulation, 2015, notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, February 12, 2019 at 04.30 P.M. at its registered office to consider and approve, inter-alla, the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter and nine months ended December 31, 2018.

The above information is also available on the website of the Company www.bharatnidhi.com and on the website of the stock exchange (CSE) www.cse-india.com. By Order of the Board Place: New Delhi Date: 01.02.2019 For Bharat Nidhi Limited

Amita Gola Company Secretary

SAHU JAIN LIMITED (CIN: L74100DL1950PLC005652) Regd Office: 16A, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024 Email:sahujainlimited@gmail.com, Phone No.: +91-7303495376, Website: www.sahujain.co.in Pursuant to regulation 29 read with regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors is

scheduled to be held on Wednesday, February 13, 2019 at its registered office at 16A, Lajpat Nagar - IV, New Delhi - 110 024 to consider and approve, inter-alia, the unaudited financial results of the Company for the guarter and nine months ended December 31, 2018. The above information is also available on the website of the Company at www.sahujain.co.in and on the website of The Calcutta Stock Exchange Limited at www.cse-india.com. By Order of the Board

(Company Secretary) सिविल इंजीनियरिंग\_विभाग दिल्ली नगरपालिका परिषद् पालिका केन्द्र, नई दिल्ली -110001

ई-खरीद निविदा सूचना तारीख के विस्तार के लिए शुद्धिपत्र

Place: New Delhi

Date: 01/02/2019

निविदा आईडी - 2019 NDMC 166403 1 कार्य का नाम: एनडीएमसी क्षेत्र में मुख्य सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपर का संचालन और व्यापक रखरखाव। अनुमानित लागत राशि ₹. 21,91,21,784.00 निविदा प्रकाशन की तिथि

21.01.2019

निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय: 04.02.2019 को अपराहन 4.00 बजे का 11.02.2019 को अपराहन 4.00 बजे तक विस्तार विस्तृत जानकारी के लिए https://govtprocurement.delhi.gov.in देखें नोटः एनडीएमसी की ई-निविदा में भाग लेने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के

To be the global Benchmark for a Capital City

ई-निविदा प्रणाली के साथ पंजीकरण अनिवार्य है।

नोट : परिशिष्ठ/शुद्धिपत्र अगर, जारी ईई आरआईपी

For Sahu Jain Limited

Sonal Malhotra

<sup>१र्च हो रा</sup>ग्गान नो वो हर्जा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उचक्रम) प्र.का. आईटी विमाग 21, राजेंद्र फोरा, नई दिल्ली-110008 पर्क शंख्या. 011-25823354, 25815512 निविदा सूचना

'सॉफ्टवेयर आधारित आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली'' की अधिप्राप्ति के लिए आरएफपी हेत् मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। स्पष्टीकरण एवं अन्य संबंधित विवरणों, आरएफपी डाउनलोड करने हेत् बैंक वेबसाइट www.psbindia.com देखें। उपरोक्त निविदा से संबंधित किसी भी

एजीएम-आईटी

सार्वजनिक सूचना

परिवर्तन को केवल बैंक वेबसाइट पर ही

प्रकाशित किया जाएगा।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे भूखण्ड संख्या- 1/188, विकास नगर, लखनऊ का मूल पट्टा विलेख जो कि आवास विकास परिषद द्वारा श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी के पक्ष में किया गया था जो क्रमांक 1916/ 93 🛮 पर दिनांक 10.05.1993 को पंजीकृत है, कहीं खो गया है जिस किसी सज्जन को प्राप्त हो या कोई अपना दावा करें तो मेरे अधिवक्ता श्री अमित चौधरी एडवोकेट को मोबाईल संख्या-9839265630 पर सात दिनों के अन्दर सम्पर्क

श्रीमती नीरू खन्ना नि.-1/188, विकास नगर, लखनऊ



कोर-1, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया,लोघी रोड, नई दिल्ली-110003 फोन : +91-11-24381392, 2438-1292, 2438-1360

फर्टिलाईजर(रों) विक्रेताओं को सुचीबद्ध करने हेत् अभिरुचि की अभिव्यक्ति एमएमटीसी द्वारा कैन्लाइज्ड यूरिया के

अतिरिक्त विभिन्न प्रकार / ग्रेडों के भारतीय/विदेशी निर्माता(ओं)/ सप्लायर(रों) / विक्रेता(ओं) को सुचीबद्ध करने हेत् अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 28/02/2019 को भामास 1730 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट https://mmtclimited.com/tenders एवं www.eprocure.gov.in एवं https://mmtcabcprocure.com

किया गया तो उसे सिर्फ उपरोक्त वेबसाइटों पर ही डाला जाएगा।

स्थानः गाजियाबाद